



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 577 राँची, सोमवार

11 जून, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 मई, 2018

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-03/2013 का०- 3719-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में न्यायायुक्त, राँची सहित सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, यदि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1/अपर न्यायायुक्त-1 के अधीन POSCO अथवा बाल अधिनियम (Children Act) के तहत लंबित मामलों की संख्या 50 से अधिक हो जाये तो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1/अपर न्यायायुक्त-1 अथवा उनके न्यायमंडल के कोई अन्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और जहाँ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1/अपर न्यायायुक्त-1 उपलब्ध न हो वहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सुनवाई हेतु पदभिहित/नामित किये जाने हेतु, अगले आदेश तक के लिए शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-03/2013 का०- 3720-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-॥/अपर न्यायायुक्त-॥ के न्यायालय को और जहाँ अपर सत्र न्यायाधीश-॥/अपर न्यायायुक्त-॥ न हो वहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को Drugs and Cosmetics Act के तहत मामलों की सुनवाई हेतु अगले आदेश तक के लिये शक्ति प्रदान की जाती है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-03/2013 का०- 3721-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में न्यायायुक्त, राँची सहित सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उनके संगत न्यायमंडलों में, आवश्यकतानुसार, विद्युत् अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अपर न्यायायुक्त के एक या अधिक न्यायालयों को पदभिहित/नामित किये जाने हेतु अगले आदेश तक के लिए शक्ति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,

सरकार के उप सचिव ।
